

प्रेस विज्ञप्ति

यूएसएड और विद्युत मंत्रालय द्वारा निवल शून्य ऊर्जा भवनों को प्रोत्साहन देने के लिए पोर्टल का शुभारंभ

नई दिल्ली, 27 मई : द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएड) तथा विद्युत मंत्रालय ने भारत में निवल शून्य ऊर्जा भवनों (एनजेडईबी) को बढ़ावा देने तथा मुख्य धारा में लाने के लिए भारत के प्रथम समेकित वेब पोर्टल का आज शुभारंभ किया। इस पोर्टल (www.nzeb.in) को श्री प्रदीप कुमार पुजारी, सचिव, विद्युत मंत्रालय, तथा राजदूत जोनाथन एडलटन, भारत में यूएसएड मिशन डायरेक्टर ने शुभारंभ किया।

अपने आप में प्रथम प्रकार के इस पोर्टल पर निवल शून्य ऊर्जा भवनों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है - जो उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जितनी वे उपयोग करते हैं - साथ ही वे दक्ष लाइटिंग और उपकरण के उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के समेकन तथा सर्वोत्तम तथा डिजाइन कार्यनीतियों के माध्यम से निवल शून्य ऊर्जा स्थिति अर्जित करते हैं। इसके अलावा पोर्टल पर एनजेडईबी गठबंधन डाला गया है जो एक उद्योग व्यापी निकाय है जो भारतीय बाजारों को उच्च ऊर्जा दक्ष भवनों की ओर प्रेरित करता है।

इस शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए, सचिव, श्री पुजारी ने भारत में निवल शून्य ऊर्जा भवनों को मुख्य धारा में लाने के लिए अपनी संकल्पना की रूपरेखा बताई और कहा "इमारतों में ऊर्जा की खपत कम करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन मानकों का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है इसलिए अब हमें व्यापक एनजेडईबी लक्ष्य की ओर देखना शुरू करना चाहिए।" सचिव ने यूएसएड और बीईई द्वारा ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) में अद्यतन बनाने की प्रक्रिया के सहयोग को स्वीकार किया जिसमें बाजार के बदलाव और तकनीकी उन्नति प्रदर्शित किए गए हैं। ईसीबीसी द्वारा भारत में वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन तय किया जाता है। सचिव (विद्युत) ने राज्यों से अनुरोध किया कि वे शेष राज्यों में ईसीबीसी संहिता को अपनाएं।

पोर्टल के विकास में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और यूएसएड को उनके तीन वर्ष के प्रयासों के फल पर बधाई देते हुए राजदूत एडल्टन ने कहा "यूएसएड को भारत में निवल शून्य ऊर्जा भवनों को प्रोत्साहन देने के इस प्रयास में भारत सरकार के साथ भागीदारी पर खुशी है। यह पोर्टल नीति निर्माताओं, विकासकों, वास्तुकारों, अभियंताओं, स्थायित्व परामर्शदाताओं और शिक्षा जगत के लिए सूचना का भण्डार प्रदान करेगा और निश्चित रूप से गतिशील भारतीय भवन उद्योग ऊर्जा दक्ष मानकों और प्रथाओं को अपनाएगा।"

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें : श्री गिरिजा शंकर, सहायक ऊर्जा अर्थशास्त्री, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, मोबाइल नंबर 09868880656